



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 02 नवम्बर, 2018
(11 कार्तिक, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22)। (केवल हिन्दी में)	305
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 71/के०अ०2/1974/धा०2/2018, दिनांक 02 नवम्बर, 2018— नया पुलिस थाना निगदू, करनाल के सृजन करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	703—704
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 नवम्बर, 2018

संख्या लैज. 27/2018.— दि मोटर वहीकलज (हरियाणा अमेंडमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22**मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018****मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा****राज्यार्थ, को आगे संशोधित****करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 103 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 103 का संशोधन।

“(1क) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिवहन उपक्रम उप-धारा (1) के अधीन ऐसी वचनबद्धता के लिए उसे जारी किसी परमिट के अधीन किसी यान, जो ऐसी वचनबद्धता द्वारा उक्त यान के उपयोग के लिए ऐसे स्वामी और उपक्रम के बीच हुए किसी समझौते के अधीन ऐसे यान के स्वामी के निपटान पर रखा गया है और ऐसी वचनबद्धता के नियन्त्रण के अधीन है, को मंजिली गाड़ी के रूप में किसी मार्ग पर चला सकता है।”।

.....

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।